



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1945 (श०)

(सं० पटना 853) पटना, बृहस्पतिवार, 19 अक्टूबर 2023

पत्रांक- वि०प्रा० (II) स्था०-04 / 2023-3838

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

वित्त विभाग
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक 16.10.2023

विषय- बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम एवं आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशाखा पदाधिकारियों के पूर्व स्वीकृत कुल-03 पदों को प्रत्यर्पित करने एवं पदाधिकारियों/कर्मियों के कुल-16 (सोलह) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अधिनियम 20, 2021 के द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना की गई है। उक्त विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रयोजनार्थ प्रारंभिक रूप से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3081 दिनांक-07.12.2021 के द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के अधीन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल-32 पदों का सृजन किया गया है।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग सम्प्रति विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-3081 दिनांक-07.12.2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के कार्यों के प्रयोजनार्थ प्रशाखा पदाधिकारी (वेतन लेवल-6) का पूर्व में कुल-03 पद स्वीकृत है। उक्त वेतन स्तर-6, प्रशाखा पदाधिकारी के वेतन स्तर-9 के संगत नहीं है। अतः उक्त सृजित प्रशाखा पदाधिकारी के पूर्व स्वीकृत कुल-03 (तीन) पदों को प्रत्यर्पित करते हुए पदाधिकारियों/कर्मियों के कुल-16 (सोलह) अतिरिक्त पदों की सृजन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की सं०	सेवा के आधार
1.	उप कुलसचिव	L-12	01	बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
2.	उप परीक्षा नियंत्रक	L-11	01	बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्ति के आधार पर

क्र०	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की सं०	सेवा के आधार
3.	सहायक कुलसचिव	L-10	02	बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
4.	सहायक परीक्षा नियंत्रक	L-10	02	बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
5.	प्रशिक्षण एवं नियोजन पदाधिकारी	L-10	01	बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
6.	लेखा पदाधिकारी	L-9	01	सीधी नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति के आधार पर
7.	प्रशाखा पदाधिकारी	L-9	02	बिहार सचिवालय सेवा से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
8.	सहायक	L-7	06	बिहार सचिवालय सेवा से प्रतिनियुक्ति के आधार पर

- उपरोक्त प्रस्तावित पदों के सृजन के फलस्वरूप कुल रु० 1,45,18,200/- (एक करोड़ पैंतालीस लाख अठारह हजार दो सौ रुपये) मात्र वार्षिक आवर्तक व्यय संभावित है, जिसका वहन, मांग संख्या-43 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-102-तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता, उपशीर्ष-0002-बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय" विपत्र कोड 43-2203001020002 के अधीन उपबंधित राशि से किया जायेगा।
- उक्त राशि की निकासी बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।
- उक्त विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत एवं आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (त०), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- यह आदेश दिनांक-03.10.2023 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-04 पर स्वीकृति एवं वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जाता है।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि(2), दिनांक-05.10.2007 के आलोक में उक्त विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत/आवंटित राशि की निकासी हेतु उप निदेशक (त०), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)853-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>